

**DURGESH MERCHANTS LIMITED**  
CIN: L65923DL1984PLC248322

Regd. Office : D-251, Ground Floor, Defence  
Colony, New Delhi- 110024  
Ph. : 011-68888824  
Email ID : [durgeshmerchants@gmail.com](mailto:durgeshmerchants@gmail.com)  
Website : [www.durgeshmerchantsltd.com](http://www.durgeshmerchantsltd.com)

Date: 10<sup>th</sup> August, 2022

To,  
The Executive Director,  
The Calcutta Stock Exchange Limited,  
7, Lyons Range, Dalhousie,  
Kolkata-700 001, West Bengal  
(Scrip Code: 14337) ISIN: INE616Q01011

Subject: Newspaper Clippings of the Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2023

Dear Sir(s),

With reference to the captioned subject, we enclose herewith the newspaper clippings of the un-audited Financial Results pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2023 published by the Company in following newspapers:

1. Financial Express (English Language) dated 10<sup>th</sup> August, 2023.
2. Jansatta (Hindi Language) dated 10<sup>th</sup> August, 2023.

This is for your information and records.

Thanking You,

For Durgesh Merchants Limited

  
For Durgesh Merchants Limited

Chetna Mann   
(Company Secretary And Compliance Officer)

Office Address: D-251, Ground Floor,  
Defence Colony, New Delhi - 110024

**A K BAJAJ INVESTMENT PVT. LTD**  
CIN: U65993UP1980PTC004972  
Registered off: A-95, Sector-65, Noida - 201309, UP  
Ph. No.: 0120-4506900, E-mail: maheshtrata@amritcorp.com

**NOTICE-Changed of registered office within the same State**  
NOTICE is hereby given to the General Public that the Company changed its registered office under section 12 of the Companies Act, 2013 on 17th July, 2023 from existing address i.e. "56, Model Town, Ghaziabad-201009 (U.P.)" to the new address "A-95, Sector-65, Noida - 201309, Distt. Gautam Budh Nagar, State of Uttar Pradesh", within the same State and within the same jurisdiction of the Registrar of Companies, U.P., Kanpur.

For and on behalf of the  
**A K Bajaj Investment Pvt. Ltd**  
Sd/-  
(J. C. Rana)  
Director  
DIN NO.: 00026190

Date: 9th August, 2023  
Place: Noida

**"IMPORTANT"**

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**FORM NO.7 [See Regulation-15(1)(c)]**  
**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI (DRT 1)**  
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001

Case No.: TRANSFER APPEAL/33/2022  
UCO BANK Exh. No.: 86  
VS  
MS PRATIMA SHARMA AND ANR

To,  
1. MS PRATIMA SHARMA AND ANR.  
W/O NIRANJAN SHARMA, R/o C-6/77, 1st Floor, Sector-5, Rohini, Delhi-110085  
2. SHRI NIRANJAN SHARMA S/O SHRI AWADHESH SHARMA,  
R/o C-6/77, 1st Floor, Sector-5, Rohini, Delhi-110085.

**NOTICE**

WHEREAS the above named appellant has preferred an appeal under RDB Act against the order passed by the Recovery Officer in RC/251/2017 under section 30 of RDB Act.

2. Take notice that the said appeal (copy enclosed) will be taken up for hearing by the Tribunal at 10:30 a.m. or at such time immediately thereafter according to the convenience of the Tribunal on 30/08/2023.

3. You are hereby required to appear in person or by a Pleader / Advocate duly instructed, as the case may be at the aforesaid time and place.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this 08/08/2023.  
Signature of the Officer Authorized to Issue Summons  
Note: Strike out whichever is not applicable.

**BAZEL INTERNATIONAL LTD.**  
Registered Office: II-20, First Floor, Lajpat Nagar, New Delhi-110024  
CIN: L65923DL1982PLC290287  
E-mail id: bazelinternational@gmail.com; Contact no: 011-46081516; Website: www.bazelinternationaltd.com

**Extract if Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2023**  
(Rs. In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year ended	
		30-06-2023 (Un-audited)	31-03-2023 (Audited)	30-06-2022 (Un-audited)	31-03-2023 (Audited)
1	Total Income from operations	137.35	92.39	26.36	213.04
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	115.91	-149.7	8.07	(111.93)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	115.91	-149.7	8.07	(111.93)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	85.77	-140.78	5.97	(112.83)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] (Refer Note No. 2)	85.77	-153.96	(14.61)	(120.75)
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-)	195.05	195.05	145.50	195.05
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	4146.55	4146.55	1319.7	4146.55
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):				
	Basic:	4.4	-9.37	0.41	(7.51)
	Diluted:	4.4	-9.37	0.41	(7.51)

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the company in its meeting held on 07<sup>th</sup> August, 2023.
- Figures for the previous quarter/year have been re-grouped/re-arranged, wherever necessary.
- Limited review of the above results has been carried out by the Auditors.
- There is only one segment for the products of the company.

On behalf of Board  
For BAZEL INTERNATIONAL LTD.  
Sd/-  
Pankaj Dawar  
(Managing Director)  
DIN: 06479649

Place: New Delhi  
Date: 07<sup>th</sup> August, 2023

**DURGESH MERCHANTS LIMITED**  
Registered Office: D-251, Ground Floor, Defence Colony, New Delhi 110024  
CIN: L65923DL1984PLC248322  
E-mail id: durgeshmerchants@gmail.com; Contact no: 011-68888824; Website: www.durgeshmerchantsltd.com

**Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2023**  
(Rs. In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year ended	
		30-06-2023 (Un-audited)	31-03-2023 (Audited)	30-06-2022 (Un-audited)	31-03-2023 (Audited)
1	Total Income from operations	30.47	13.89	6.50	32.75
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	20.83	1.71	1.11	3.65
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	20.83	1.71	1.11	3.65
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	15.41	2.07	0.82	3.51
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	15.41	2.07	27.25	22.91
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	280.25	280.25	280.25	280.25
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the financial year 2022-2023	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):				
	(a) Basic	0.55	0.07	0.03	0.13
	(b) Diluted	0.55	0.07	0.03	0.13

**Notes:**

- The Company is having only one business activity so the segment reporting under Ind AS-108 is not required.
- The Above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 08th August 2023. The Statutory Auditor of the Company have provided Audit Report for the same.
- Figures of previous periods were re-grouped/re-classified wherever necessary to conform to the periods of current periods.
- Indian Accounting Standards are applicable on the Company w.e.f 1st April, 2019.

On behalf of Board  
For DURGESH MERCHANTS LIMITED  
Sd/-  
Rohit Ahuja  
(Managing Director)  
DIN: 07859817

Date : 08/08/2023  
Place : New Delhi

**MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED**  
Registered Office: TC NO.14/2047-4, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvananthapuram - 695 034,  
CIN No - U65922KL2010PLC025624. Corporate Office: 12/A/1, 13th Floor, Parinee Crescendo, Plot No. C38 & C39, Bandra Kurla Complex-G block (East), Mumbai-400005 TEL. NO: 022-62728517,  
Authorised Officer Email ID: authorised.officer@muthoot.com,  
Contact Person: Govind Ram BALRAM Sharma - 9212443181

**PUBLIC NOTICE - AUCTION CUM SALE OF PROPERTY**

Sale Of Immovable Assets Under Securitization And Reconstruction Of Financial Assets & Enforcement Of Security Interest Act, 2002  
In exercise of powers conferred in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Authorized Officer of the Muthoot Housing Finance Company Ltd., (hereinafter referred to as the "Company") has taken the possession of under mentioned properties (hereinafter referred to as "Secured Asset") and held as security in respect of HOUSING Loan facilities granted to below mentioned customers (hereinafter referred to as "Borrowers") and further it has been decided to sell the Secured Asset on "as is where is", "as is what is", "whatever there is" and "no recourse" basis/conditions by inviting sealed tenders from public in respect of the secured debt amounting to amount in below with further interest and expenses thereon till final payment of the overdue from Borrowers.

Sr. No.	Name of Borrowers & LAN	Description of property	Possession Type & Date	Total O/s Amount (Rs.) Future Interest	Reserve Price (Rs.)	E.M.D. (Rs.)
1.	LAN No.: 15100079628 Gaurav Kumar Chole Jatav	KHASRA NO-161, VIL-DOMAI, HAPUR, UTTAR PRADESH, GHAZIABAD, 245101, INDIA	Constructive Possession 15-April-2022	Rs.436117.00/- as on 09-August-2023	Rs. 8,00,000/-	Rs. 80,000/-

**Inspection Date & Time: 24-August-2023 & 25-August-2023 at 10.00 AM to 05.00 PM**  
**Auction Date: 15-September-2023 10.00 AM to 03.00 PM & Last date for Submission of Bid: 14-September-2023**  
**Place of Sale Ghaziabad Branch: B-2, First Floor, Rdc, Rajnagar, Above Sbi Bank, Ghaziabad, (Up) - 201001**

Intending bidders may inspect the properties on the date and time as mentioned above. Terms & Conditions of public auction:- 1) Sale is strictly subject to the terms and conditions mentioned hereunder as per attached guidelines under SARFAESI Act, 2002 & also the terms and condition mentioned in the offer/ tender document to be submitted by the intending bidders. 2) The property will be sold on "as is where is" and "As is what is" "whatever there is" and "no recourse" condition, including encumbrances, if any. 3) The property under auction can be inspected on the date & time specified above. For any queries with regards to inspection of properties or submission of tenders, kindly establish contact to the Authorized Officer at respective locations on above mention contact numbers. The interested buyers may send their offers for the above property in a sealed cover along with Demand Draft Payable at Mumbai favouring "Muthoot Housing Finance Company Limited", towards earnest money deposit (EMD) 10% of Reserve Price, 4) In addition to offer documents, the intending bidder shall also attach a copy of the PAN card issued by the Income Tax department AND bidder's identity proof and the proof of residence such as copy of the Passport, Election Commission Card, Ration Card, Driving license etc. 5) In no eventuality the property would be sold below the reserve price. 6) The bidders present in the auction would be allowed to increase their offer multiples of Rs. 10000/- in addition to Reserve Price fixed. 7) All dues and outgoings, i.e., Municipal Taxes, Maintenance / Society Charges, Electricity and water taxes or any other dues including Stamp Duty, Registration Charges, Transfer Charges and any other expenses and charges in respect of the registration of the Sale Certificate in respect of the said properties shall be paid by the successful bidder/purchaser. 8) The successful bidder/purchaser shall have to pay 25% of the final bid amount (after adjusting 10% of the E.M.D. already paid) within next working days from the acceptance of the offer by the Authorized Officer in respect of the sale, failing which, the earnest money deposit will be forfeited. 9) The balance 75% of the Sale price shall have to be paid within 15 days of conveying the confirmation of the sale to the successful Purchaser by the Authorized Officer or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the Authorized Officer. 10) The Authorized Officer reserves his right to vary any of the terms and condition of this notice for sale, without prior notice, at his discretion. 11) In case, all the dues together with all cost, charges and expenses incurred by the Secured Creditor are tendered by the above name borrower / co-borrower till one working day prior to the date of Auction then the property will not be sold and all the bids received from the prospective bidder shall be returned to them without any liability / claim against M/s Muthoot Housing Finance Company Ltd. The borrower/guarantor/mortgagor are hereby given STATUTORY 30 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) & 9 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES OF SARFAESI ACT to discharge the liability in full and pay the dues as mentioned above along with upto date interest and expenses within above mentioned days from the date of this notice failing which the Secured Asset will be sold as per the terms and conditions mentioned above. Borrowers are also requested to remove their uncharged belongings from the property within 30 days time else it will be removed from property on their risk and cost.

Place: UTTAR PRADESH, Date: 10-August-2023 Sd/- Authorised Officer, For Muthoot Housing Finance Company Limited

**IndusInd Bank Limited**  
Registered office: 2401, Gen. Thimmapaya Road, (Cantonment), Pune - 411 0018 Branch Office: Sangam Complex, Ground Floor, Off. Mirza Ismail Road, Jaipur - 302006

**POSSESSION NOTICE**  
(As per Rule 8(2) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of IndusInd Bank Limited under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notices upon the Borrowers / Co-borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower/Co-borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Co-borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates.

The Borrower/Co-borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IndusInd Bank Limited.

Name and Address of Borrowers & Date of Demand Notice	Description of Property (ies) & Date of Possession	Amount demanded in Possession Notice (Rs.)
1. MUKESH AMAR SINGH, 2. VIKLASH AMAR SINGH, H.No. 5546, GALI NO. 5, NEW CHANDRAWAL JAWHAR NAGAR, NORTH DELHI, DELHI D UNIVERSITY, DELHI- 110007. Demand Notice Date: 25-Aug-2022 Loan No. RHAHDEL00060505 (PR00764482)	All the piece and parcel of property bearing BUILT-UP PROPERTY ON THIRD FLOOR WITH ITS EXCLUSIVE ROOF / TERRACE RIGHTS UP TO SKY , BUILT ON LAND AREA MEASURING 35.95 SQ. MTRS. A PART OF BUILT UP FREE HOLD PROPERTY BEARING MUNICIPAL NO.4788 AND 4786 SITUATED AT GALI DR.MITRA WALI, ARYA PURA, ROSHANARA ROAD, SUZBI MANDI, DELHI. Date of Possession: 7-Aug-2023	Rs.1163131/- (Rupees Eleven Lakh(s) Fifty Three Thousand One Hundred Thirty One Only) as on 23rd August 2022
1. MADAN SHARMA, 2. PRATIBHA SHARMA PLOT NO 136/ UG- 2, VIKRAM ENCLAVE, SHALIMAR GARDEN, SAHIBABAD, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH- 201005. Demand Notice Date: 30-Jun-2022 Loan No. RHAHDEL00048533 (PR00764442)	ALL THE PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEARING FLAT NO.- UG-02 ON UPPER GROUND FLOOR WITHOUT ROOF RIGHTS, UG BACK SIDE, COVERED AREA ADMEASURING 37.16 SQ.MTRS., PLOT NO.- 136 ADMEASURING 111 SQ.YDS. SITUATED AT RESIDENTIAL COLONY VIKRAM ENCLAVE EXTN., VILLAGE PASONDA, PARGANA LONI, DISTRICT GHAZIABAD, UTTAR PRADESH- 201102 AND PROPERTY BOUNDED AS UNDER EAST- PLOT NO. 137, WEST- OTHERS PLOT, NORTH- OTHERS PLOT, SOUTH- ROAD 30 FEET WIDE. Date of Possession: 5-Aug-2023	Rs. 1158987/- (Rupees Eleven Lakh(s) Fifty Eight Thousand Nine Hundred Eighty Seven Only) as on 30th June 2021
1. SUBHASH MAHANTA, C/O SAHDEV SAINI, H.N.558, 1ST FLOOR, ROOM NO.-9, GALI NO.1, CHALERA SECTOR -44, NOIDA, UTTAR PRADESH - 201301. 2. RIJU MONI BORAH, VILL TOWN KHUTIKATA, WAID NO 19, PS NAGAON, SADAR SUB KHUTIKATA, NAGAON, ASSAM - 782428. Demand Notice Date: 16-Nov-2022 Loan No. RHAHDEL00061817 (PR00764490)	All the piece and parcel of property bearing FLAT NO. 304, 3RD FLOOR, MEASURING 28.39SQ.MTRS., IN PARADISE HOMES, KHATA NO.30, KHASARA NO.107, SITUATED AT SHAHBERI VILLAGE, PARGANA DADRI, NOIDA EXTN., DISTRICT GAUTHAM BUDH NAGAR, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH. Date of Possession: 5-Aug-2023	Rs. 1043164/- (Rupees Ten Lakh(s) Sixty Three Thousand One Hundred Sixty Four Only) as on 14th November 2022

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Place: Delhi/MCR  
Date: 10/08/2023

Sd/-  
(Authorized Officer)  
IndusInd Bank Limited.

**shubham**  
Corporate Office : 425, Udyog Vihar Phase IV, Gurgaon-122015 (Haryana)  
Ph. : 0124-4212530/31/32, E-Mail: customercare@shubham.co website : www.shubham.co

**POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)**

Whereas the undersigned being the authorized officer of the Shubham Housing Development Finance Company Limited (hereinafter called Shubham) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice calling upon borrowers to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described hereinbelow in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Shubham Housing Development Finance Company Limited for an amount detailed below and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Details are as below:

S. No.	Loan No/Borrower(s), Co-Borrower	Demand Notice Amount	Date of Demand Notice	Secured Asset	Date of Affixation
1.	ODEL190500005202072, Rahul Kumar, Kumari Anjali Prajapati	Rs. 23,90,267/-	20-05-2023	Plot No. P-49, First Floor, Part of Khasra No.25/19, Village Razapur Khurd, Block-P, Mohan Garden, Uttam Nagar, West Delhi-110059	07-08-2023

Place:- Gurgaon,  
Date:- 09-08-2023

Authorized Officer,  
SHUBHAM HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COMPANY LTD.

**DCB Bank Limited**  
A-Set House, 7/56, D.B.Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005

**E- AUCTION SALE NOTICE**  
(Under Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002)

E-Auction sale notice for sale of immovable Assets under the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s), co-borrowers and the guarantors in particular, by the Authorized Officer, that the under mentioned property is mortgaged to DCB BANK LTD., The Authorized Officer of the Bank has taken the physical possession under the provision of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The property will be sold by tender cum public E-auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and further interest, charges and cost etc. as per the below details:-

The property will be sold "as is where is" and "as is what is" condition.

Sr. No	Name of the Borrower & Guarantors	Reserve Price	Earnest Money Deposit (EMD)	Date of E-Auction	Type of Possession
1	RISHI AHUJA, RAJ AHUJA AND ROXY AGENCIES	Rs.3400000/- (Rupees Thirty Four Lakh Only)	Rs.340000/- (Rupees Three Lakh Forty Thousand Only)	29-08-2023	Physical
<b>Details of Mortgage Property:</b> ONE HALL ON FIRST FLOOR WITHOUT ROOF/TERRACE RIGHTS HAVING ITS AREA MEASURING 45.85 SQ. MTRS BUILT ON PROPERTY BEARING NO. MPL NO. 118 SITUATED AT WARD NO. IX GALI BATASHAN CHOWK BARSHAHULLA CHAWRI BAZAR NEW DELHI - 110006.					
2	MANEET PRUTHI, ASHA DEVI, MY FASHION INDUSTRY and MUKESH KUMAR	Rs.4600000/- (Rupees Forty Six Lakh Only)	Rs.460000/- (Rupees Four Lakh Sixty Thousand Only)	29-08-2023	Physical
<b>Details of Mortgage Property:</b> ENTIRE THIRD FLOOR (WITH ROOF RIGHTS), PORTION OF PROPERTY NO. B-312, THIRD FLOOR, SECTOR 19 DWARKA, NEW DELHI - 110075.					
3	MR ABHISHEK BALUNI and ARCHANA	Rs.3300000/- (Rupees Thirty Three Lakh Only)	Rs.330000/- (Rupees Three Lakh Thirty Thousand Only)	29-08-2023	Physical
<b>Details of Mortgage Property:</b> FLAT SITUATED ON BEARING MUNICIPAL NO.38, AARAGHAR, NEW NO.84/87, DEHRADUN, UTTARAKHAND -248001 (AREA ADMEASURING 83.64SQ.MTRS)					
4	ARIES HEALTH CARE, MANISH SRIVASTAVA and REETA	Rs.2350000/- (Rupees Twenty Three Lakh Fifty Thousand Only)	Rs.235000/- (Rupees Two Lakh Thirty Five Thousand Only)	29-08-2023	Physical
<b>Details of Mortgage Property:</b> PLOT NO A 68/1, SHOP NO. 225, 2 ND FLOOR, ADITYA PALACE EXTENSION, GARH ROAD, SHASTR NAGAR, MEERUT, UTTAR PRADESH - 250002.					
5	M/S SUMERU PROCESSORS PVT. LTD, MR. NIRAJ JHA, MR. DHIREN NAVLAKAHA and MR. FARHAD SURI	Rs.4500000/- (Rupees Forty Five Lakh Only)	Rs.450000/- (Rupees Four Lakh Fifty Thousand Only)	29-08-2023	Physical
<b>Details of Mortgage Property:</b> FLAT NO.G-2, GROUND FLOOR, JEEVAN APARTMENTS OF BUILDING BEARING PROPERTY NUMBER 16A, JAMIA NAGAR, OKHLA, NEW DELHI-110025					
6	KUSUM SHARMA and SUSHIL KUMAR	Rs.1500000/- (Rupees Fifteen Lakh Only)	Rs.150000/- (Rupees One Lakh Fifty Thousand Only)	29-08-2023	Physical
<b>Details of Mortgage Property:</b> RESIDENTIAL PROPERTY NO. 18, PART CHARUL ENCLAVE, KHASRA NO. 86, MAUZA-KHARAI AGRA UTTAR PRADESH - 282001					
7	SANGEETA and MANOJ KUMAR	Rs.700000/- (Rupees Seven Lakh Only)	Rs.70000/- (Rupees Seventy Thousand Only)	29-08-2023	Physical
<b>Details of Mortgage Property:</b> HOUSE AT KHASRA NO. 91 MAUZA KEHRAI TAJ GAJ WARD AGRA UTTAR PRADESH 282001					
8	MR NEERAJ KUMAR and KIRAN DEVI	Rs.2050000/- (Rupees Twenty Lakh Fifty Thousand Only)	Rs.205000/- (Rupees Two Lakh Fifty Thousand Only)	29-08-2023	Physical
<b>Details of Mortgage Property:</b> HO NO-198 KHASRA NO-240 PUSHPANJALI COLONY, LONI GHAZIABAD, UTTAR PRADESH - 201102					
9	VIJAY and POONAM DEVI	Rs.1350000/- (Rupees Thirteen Lakh Fifty Thousand Only)	Rs.135000/- (Rupees One Lakh Thirty Five Thousand Only)	29-08-2023	Physical
<b>Details of Mortgage Property:</b> PART OF KHASRA NO.- 251 M2, VILLAGE - BISNOLI ROYAL BALAJI ENCLAVE - II PARGANA DADRI DISTT. G.B. NAGAR NOIDA UTTAR PRADESH - 201307					
10	M/s Shri Ganesh Pulp And Paper Pvt Ltd (through its Director Mr Ravi Mittal) And M/s Shri Ganesh Pulp and Paper Pvt Ltd (through its Director Mrs Muskan Goyal)	Rs.5500000/- (Rupees Fifty Five Lakh Only)	Rs.550000/- (Rupees Five Lakh Fifty Thousand Only)	29-08-2023	Physical
<b>Details of Mortgage Property:</b> A-20/5 MAIN CHETRAM GALI MAJUPUR NEW DELHI - 110053.					
11	B C ENTERPRISES, BALBIR SINGH, ANAR DEVI and BHUPENDER KUMAR	Rs.3060000/- (Rupees Thirty Lakh Sixty Thousand Only)	Rs.306000/- (Rupees Three Lakh Six Thousand Only)	29-08-2023	Physical
<b>Details of Mortgage Property:</b> SHOP NO PLOT NO 13, PART OF KHASRA NO 7/15 (8-2), MUAZA-GAUNCHI, TEH & DIST.-FARIDABAD HARYANA 121001					

**Inspection Date and Time:** - of all properties from 21-08-2023 to 25-08-2023 Between 11:00AM to 04:00PM contact to Mr Ajay kumar and Mr. Pramod Chand on 8699755500 and 9990338759 from 25 to 6pm.

**Date and time of submission of EMD of EMD on or before 23-08-2023 up-to 5PM,** with request letter of participation KYC, Pan Card, Proof of EMD at email id pramod.chand@dcbbank.com, ajay.kumar@dcbbank.com

The intending purchasers/bidders are required to deposit EMD amount either through NEFT/RTGS in the name of the beneficiary, DCB Bank Ltd, A-Set House, 7/56, D. B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, A/C Name RAOU Non PDC Collection, Account No. 0462955100223. IFSC Code DCBL0000046. Branch New Delhi.

**TERMS AND CONDITIONS OF THE E-AUCTION**

- (1) Contact SHEKHAR SINGH - 9711522275, 7428695102, e-mail id: shekhar.s@cartradeexchange.com at their web https://eauction.samil.in on the dates as mentioned in the table above with Unlimited Extension of 5 Minutes. Bidders are advised to check detailed terms and conditions of auction sale before submitting their bids refer to the link https://www.dccbanc.com/cms/showpage/page/customer-corner.
- The interested bidders are required to register themselves with the portal and obtain login ID and Password well in advance, which is mandatory for e-bidding, from auction service provider (SAMIL). Prospective bidders may avail online training on e-auction from their registered mobile number only.
- Online E-auction participation is mandatory in the auction process by making application in prescribed format which is available along-with the offer/tender document on the website.

Date: 10.08.2023  
Place : Delhi, UP, UK and Haryana

Sd/-  
Authorized Officer  
DCB Bank Limited

**YES BANK** पंजीकृत एवं निगमित कर्तालय - एन बैंक नगर, ओक फोर्स्ट एक्सप्रेस हाइवे, सांताक्रुस ई-मैनेज - 400055, भारत, वेबसाइट : www.yesbank.in ई-मेल : communications@yesbank.in सीआईएन : एल65190एएए2003पीएलसी248324

संरक्षण/एस नियमावली का नियम 9(1) के साथ पाठित नियम 8(6) के अंतर्गत अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पाठित विक्रय परिपत्रिकाओं के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसधारण को और विशेष रूप में उपकारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधकृत/प्रामाणिक निम्न विवरित अचल संपत्ति, जिसका मौखिक अधिग्रहण यस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी अर्थात् प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा किया जा चुका है, उसका विक्रय एवं गारंटर(ों) की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय-मुद्रय सौविधापूर्वक ढर पर निष्कात किया जाएगा। 14 सितंबर 2023 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो "हैं" आधार पर किया जाएगा, जो कि उपकारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ों) को और से प्रतिभूत ऋणदाता को देय-मुद्रय सौविधापूर्वक ढर पर निष्कात किया जाएगा। एवं शुल्कों के अभाव 07-नवंबर-2022 के अनुसार स. 25,78,678.62 (रुपये पच्चीस लाख अठ्ठसह हजार छह शौ अठ्ठसह एवं बससह सैसा मात्र) की राशि की वसूली के लिये किया जाएगा। इच्छुक पार्टियों/निविदाकर्ताओं द्वारा प्राथमिक अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरांत 02 सितंबर 2023 को मध्य. 11.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक उचितसहित संपत्तियों का निरीक्षण किया जा सकता है।

संपत्ति का विवरण

उपकारकर्ता/गारंटर(री)/प्रतिभूति प्रदाता/ओं के नाम	1. <b>मैसर्स मनसा पौवर्स (उपकारकर्ता)</b> इसकी स्वामिनी आराना देवी के माध्यम से 139, शक्ति विहार, फेज-2, सलेमपुर, महदूर, भद्राबाद, हरिद्वार, उत्तराखंड-249402
संपत्ति का विवरण	2. <b>सुश्री आराना देवी (सह-उपकारकर्ता 1)</b> प्लॉट नं. 68, शक्ति विहार, फेज-2, सलेमपुर, महदूर, भद्राबाद, हरिद्वार, उत्तराखंड-249403
	3. <b>श्री रवि चंद्र निमा (गारंटर/बंधककर्ता)</b> पुत्र श्री ओमकार निमा प्लॉट नं. 68, शक्ति विहार, फेज-2, सलेमपुर, महदूर, भद्राबाद, हरिद्वार, उत्तराखंड-249403

07-नवंबर-2022 के अनुसार देय राशि

₹ 630 वर्ग फुट अर्थात् 58.55 वर्ग मीटर की आवासीय संपत्ति जो प्लॉट नं. 68 पर, खसरा संख्या 1365 से संबंधित, शक्ति विहार, फेज-2, माग सलेमपुर महदूर, परगना रुड़की, तहसील एवं जमपद हरिद्वार में स्थित है।

आरक्षित मूल्य (₹.)

₹ 20,81,000/- (रुपये बीस लाख इक्कीस हजार मात्र)

घरघर राशि

₹ 2,08,100/- (रुपये दो लाख आठ हजार एक सौ मात्र)

मौखिक अधिग्रहण की तिथि : 21-जून-2023  
मांग सूचना की तिथि : 07-नवंबर-2022

बोली जमा करने की अंतिम तिथि

12 सितंबर 2023 को अप. 3.00 बजे तक

ई-नीलामी की तिथि एवं समय

14 सितंबर 2023 को मध्य. 11.00 से अप. 2.00 बजे तक, 5 मिनट प्रत्येक के विस्तारों के साथ

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये कृपय <http://10.0.49.5/about-us/media/auction-property> - प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् [www.yesbank.in](http://www.yesbank.in) पर दिखे गये लिंक को देखें। निविदा अर्पण/ई-नीलामी सूची प्राप्त करने में होनेवाली किसी भी कठिनाई या अचल संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्तियों के निरीक्षण के विषय में तथा शर्तों के लिए, कृपया यस बैंक लिमिटेड के संबंधित पदाधिकारियों, श्री अजय राणा से संपर्क करें अथवा उन्हें ईमेल करें तथा मैसर्स ई-प्रोपर्टीज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (नीलामी डिपॉजिट) अमदावाद, वेब पोर्टल पता : <https://safefaci.auctiontng.net> के अधिकारियों से संपर्क करें। बोलीदाता सहमतान नंबर : +91 9256562821/18 और 9978951888, 079-68136880/68136837, ई-मेल : support@auctiontng.net और rampasad@auctiontng.net संपर्क व्यक्ति : श्री यम शर्मा- 9978951888

अभिप्रेत कर को धारा 13(6) के तहत विभाजितानुसार यह हमारे द्वारा प्रस्तुत सभी लागू, शुल्कों और व्ययों के साथ हमारी बकाया राशि का भुगतान, विषय अथवा हस्तान्तरण हेतु निष्कात स्थिति से पूर्व किसी भी समय कर दिया जाता है, जो हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्ति का विषय अथवा हस्तान्तरण नहीं किया जाएगा, तथा प्रतिभूत परिसंपत्ति के हस्तान्तरण अथवा विक्रय हेतु हमारे द्वारा कोई भी आगामी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उपरोक्त को दायित्वकारकों के लिये, प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंतर परंप्रकृत बकाया राशि का भुगतान करने हेतु, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के 8(6) के साथ पाठित नियम 9(1) के अंतर्गत सूचना के रूप में समझ-माना जाय।

कृते यस बैंक लिमिटेड अजय राणा उपप्रबन्धक  
दिनांक : 10/08/2023  
स्थान : नई दिल्ली

**पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड**  
सीआईएन: L74899DL1996PLC077120  
पंजीकृत कार्यालय: 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001  
फोन नंबर 011-23325759, 23325779. फैक्स नं.: 011-23325751, 23325763  
ईमेल: pnbgiltspnbgilt.com, वेबसाइट: www.pnbgilt.com

27वां वार्षिक आम बैठक का सूचना और रिपोर्ट इ-वांटिंग जानकारी

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों का 27वां वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 08 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जोकि कंपनी अधिनियम, 2013 (अभिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवस्थाओं के तहत करने के लिए एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 (दिनांक 8 अप्रैल 2020), 17/2020 (13 अप्रैल 2020), 20/2020 (दिनांक 5 मई 2020), और नवीनतम 10/2022 (28 दिसंबर, 2022) है। (एमसीए संकल्पों) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी परिपत्रों) संकल्प नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 (दिनांक 12 मई 2020) के साथ पाठित सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक (15 जनवरी, 2021) और संकल्प नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 (दिनांक 13 मई 2022) और नवीनतम परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/ए/2023/4 (5 जनवरी, 2023) के अनुपालन में कॉमन जहाज पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के विना आयोजित की जा रही है।

कंपनी की वित्तीय बयं 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा केवल उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनकी ईमेल आइडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागी) के साथ भोजित है। कृपया ध्यान दें कि एमसीए परिपत्र/सेबी परिपत्रों के माध्यम से सदस्यों को 27वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की मौखिक प्रति भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, सेबी के परिपत्र के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी उन श्रेयधारकों को भेजी जाएगी जो इसके लिए हमें [m.kochar@pnbgilt.com](mailto:m.kochar@pnbgilt.com) पर ई-मेल लिखकर अनुरोध करें।

उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट [https://www.pnbgilt.com/investors-relations#Annual\\_report](https://www.pnbgilt.com/investors-relations#Annual_report) और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों पर क्रमशः [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध होंगे।

एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी व्यावसायिक मंदापे व वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के विस्तृत तरीके के निर्देश दिए जा रहे हैं। कंपनी लागू प्रावधानों के अनुसार पात्र सदस्यों को एपीएम (ई-वोटिंग) (सामूहिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग) के रूप में संदर्भित) के दौरान रिपोर्ट ई-वोटिंग सुविधा (रिपोर्ट ई-वोटिंग) और ई-वोटिंग सिस्टम की सुविधा प्रदान कर रहा है। रिपोर्ट ई-वोटिंग की अवधि 1 सितंबर, 2023 (09:00 पूर्वाह्न) से शुरू होकर 7 सितंबर, 2023 (शाम 05:00 बजे) समाप्त होगी। 1 सितंबर, 2023 की रात-ऑफ तिथि को मौखिक रूप में या अमौखिक रूप में श्रेय धारण करने वाले कंपनी के सदस्य एजीएम के समय रिपोर्ट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे ई-वोटिंग के माध्यम से एपीएम में वोट कर सकते हैं। वीसी के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने फोलियो में केवाईसी अपडेट करें, अपने ईमेल पते और बैंक खाते का विवरण दर्ज करें या यदि आवश्यक हो तो किसी भी बदलाव के बारे में सूचित कर सकते हैं। पंजीकरण/परिवर्तन की प्रक्रिया नीचे उल्लिखित है:

मौखिक वोटिंग के मामले में	कंपनी के श्रेय ट्रांसफर एजेंट यानी एमसीएए श्रेय ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को एफ-65, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 पर निर्धारित फॉर्म आईएसआर -1 और अन्य प्रासंगिक रूपों में विवरण भरकर पंजीकृत/अपडेट करें। उक्त फॉर्म और सेबी परिपत्र के प्रासंगिक प्रावधान (परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/ए/2023/3 दिनांक 16 मार्च, 2023, यथा संशोधित) कंपनी की वेबसाइट पर <a href="https://www.pnbgilt.com/downloads">https://www.pnbgilt.com/downloads</a> पर उपलब्ध है।	संपर्क नंबर
	कंपनी के श्रेय ट्रांसफर एजेंट यानी एमसीएए श्रेय ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को एफ-65, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 पर निर्धारित फॉर्म आईएसआर -1 और अन्य प्रासंगिक रूपों में विवरण भरकर पंजीकृत/अपडेट करें। उक्त फॉर्म और सेबी परिपत्र के प्रासंगिक प्रावधान (परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/ए/2023/3 दिनांक 16 मार्च, 2023, यथा संशोधित) कंपनी की वेबसाइट पर <a href="https://www.pnbgilt.com/downloads">https://www.pnbgilt.com/downloads</a> पर उपलब्ध है।	+91 22 24994545
	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा/VC सुविधा	1800-222-990

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने फोलियो में केवाईसी अपडेट करें, अपने ईमेल पते और बैंक खाते का विवरण दर्ज करें या यदि आवश्यक हो तो किसी भी बदलाव के बारे में सूचित कर सकते हैं। पंजीकरण/परिवर्तन की प्रक्रिया नीचे उल्लिखित है:

के लिए	पता	ई-मेल	पता	संपर्क नंबर
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा/VC सुविधा	सुश्री मनीषा नन्दा एनएसडीएल	<a href="mailto:pallavi@nsdl.co.in">pallavi@nsdl.co.in</a> <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a>	ट्रेंड वर्ल्ड - ए. एन. कल्याण मिश्र कमांडुल लोहार परेल, मुंबई - 400013	+91 22 24994545 1800-222-990

बोर्ड की आज्ञानुसार हस्ता./- (भौतिका कोवर) कंपनी सचिव

दुर्गेश मरचेन्ट्स लिमिटेड					
पंजीकृत कार्यालय: सी-251, आरुन्धत प्लोर, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली 110024 CIN: L65923DL1984PLC248322					
ईमेल आईडी: <a href="mailto:durgeshmerchants@gmail.com">durgeshmerchants@gmail.com</a> ; दूरभाष: 011-68888824; वेबसाइट: <a href="http://www.durgeshmerchantsltd.com">www.durgeshmerchantsltd.com</a>					
जून 30, 2023 को समाप्त तिमाही के उद्घरित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम (राशि लाखों में)					
क्र० सं०	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वार्षिक
		30-06-2023 (अन-अंकेक्षित)	31-03-2023 (अंकेक्षित)	30-06-2022 (अन-अंकेक्षित)	
1	संचालन से कुल आय	30.47	13.89	6.50	32.75
2	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	20.83	1.71	1.11	3.65
3	कर से पहले अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	20.83	1.71	1.11	3.65
4	कर के बाद पहले अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	15.41	2.07	0.82	3.51
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [व्यापक के लिए शामिल लाभ/(हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	15.41	2.07	27.25	22.91
6	चुक्ता इक्वीटी शेयर कैपिटल (सममूल्य रूप 10/- प्रत्येक)	280.25	280.25	280.25	280.25
7	रिजर्व (रिव्यूएबल रिजर्व को छोड़कर) जमा कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अंकेक्षित तुलन पत्र में दिखाया गया।	-	-	-	-
8	प्रति शेयर आय (रु० 10/- के प्रत्येक) (संचालन जारी एवं बंद करने के लिए):	0.55	0.07	0.03	0.13
	(क) मूल:	0.55	0.07	0.03	0.13
	(ख) त्रुटतः	0.55	0.07	0.03	0.13

- टिप्पणी:
- कम्पनी की केवल एक ही व्यावसायिक गतिविधि है, इस्पात आइर्नपीएस-108 के अनुरांत सेगमेंट रियाजिंग अक्षेति नहीं है।
  - उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल की 08 अगस्त, 2023 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किया गया। कम्पनी के वित्तीय लेखापरीक्षा न इस्का लिए अंकेक्षित रिपोर्ट प्रदान की है।
  - छिपले अवधि के आइडई वर्तमान अवधि की पुष्टि करने के लिए जहाँ पर आवश्यक हो, पुनर्गणित एवं पुन्यव्यवस्थित किये गये हैं।
  - कम्पनी पर w.e.f. 13अप्रैल, 2019 से भारतीय लेखा मानक लागू है।

मंडल की ओर से कृते दुर्गेश मरचेन्ट्स लिमिटेड हस्ता./- रोहित आडुजा (प्रबंध निदेशक) DIN: 07859817

**MUTHOOF FINCORP LTD.** | सोने की नीलामी सूचना  
Regd. Office: Muthoof Centre, TC No 27/ 3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.  
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

सभी संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30.09.2022 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 31.12.2022 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 30.06.2023 तक की अवधि के लिए कम्पनी की नीचे कथित शाखाओं में गिरी रखे सोने के गहने जिन्हें छुड़ाने का समय बीत चुका है तथा जिन्हें बार-बार सूचना दिए जाने पर भी अब तक छुड़ाए नहीं गया है उनकी नीलामी 18.08.2023 को 10.00 बजे से शुरू कर दी जाएगी।

**NOIDA DISTRICT - NOIDA SEC 12-2:** F5118, F5182, F5374, F5383, F5390, F5448, F5458, F5480, F5535, F5538, F5546, F5572, F5581, F5583, F5604, F5607, F5611, F5613, F5616, F5621, F5642, F5651, F5655, F5657, F5660, F5664, F5666, F5672, F5678, F5696, F5728, F5728, F5748, F5838, F5845, F5852, F5855, F5858, F5862, F5864, F5866, F5868, F5870, F5872, F5874, F5876, F5878, F5880, F5882, F5884, F5886, F5888, F5890, F5892, F5894, F5896, F5898, F5900, F5902, F5904, F5906, F5908, F5910, F5912, F5914, F5916, F5918, F5920, F5922, F5924, F5926, F5928, F5930, F5932, F5934, F5936, F5938, F5940, F5942, F5944, F5946, F5948, F5950, F5952, F5954, F5956, F5958, F5960, F5962, F5964, F5966, F5968, F5970, F5972, F5974, F5976, F5978, F5980, F5982, F5984, F5986, F5988, F5990, F5992, F5994, F5996, F5998, F6000, F6002, F6004, F6006, F6008, F6010, F6012, F6014, F6016, F6018, F6020, F6022, F6024, F6026, F6028, F6030, F6032, F6034, F6036, F6038, F6040, F6042, F6044, F6046, F6048, F6050, F6052, F6054, F6056, F6058, F6060, F6062, F6064, F6066, F6068, F6070, F6072, F6074, F6076, F6078, F6080, F6082, F6084, F6086, F6088, F6090, F6092, F6094, F6096, F6098, F6100, F6102, F6104, F6106, F6108, F6110, F6112, F6114, F6116, F6118, F6120, F6122, F6124, F6126, F6128, F6130, F6132, F6134, F6136, F6138, F6140, F6142, F6144, F6146, F6148, F6150, F6152, F6154, F6156, F6158, F6160, F6162, F6164, F6166, F6168, F6170, F6172, F6174, F6176, F6178, F6180, F6182, F6184, F6186, F6188, F6190, F6192, F6194, F6196, F6198, F6200, F6202, F6204, F6206, F6208, F6210, F6212, F6214, F6216, F6218, F6220, F6222, F6224, F6226, F6228, F6230, F6232, F6234, F6236, F6238, F6240, F6242, F6244, F6246, F6248, F6250, F6252, F6254, F6256, F6258, F6260, F6262, F6264, F6266, F6268, F6270, F6272, F6274, F6276, F6278, F6280, F6282, F6284, F6286, F6288, F6290, F6292, F6294, F6296, F6298, F6300, F6302, F6304, F6306, F6308, F6310, F6312, F6314, F6316, F6318, F6320, F6322, F6324, F6326, F6328, F6330, F6332, F6334, F6336, F6338, F6340, F6342, F6344, F6346, F6348, F6350, F6352, F6354, F6356, F6358, F6360, F6362, F6364, F6366, F6368, F6370, F6372, F6374, F6376, F6378, F6380, F6382, F6384, F6386, F6388, F6390, F6392, F6394, F6396, F6398, F6400, F6402, F6404, F6406, F6408, F6410, F6412, F6414, F6416, F6418, F6420, F6422, F6424, F6426, F6428, F6430, F6432, F6434, F6436, F6438, F6440, F6442, F6444, F6446, F6448, F6450, F6452, F6454, F6456, F6458, F6460, F6462, F6464, F6466, F6468, F6470, F6472, F6474, F6476, F6478, F6480, F6482, F6484, F6486, F6488, F6490, F6492, F6494, F6496, F6498, F6500, F6502, F6504, F6506, F6508, F6510, F6512, F6514, F6516, F6518, F6520, F6522, F6524, F6526, F6528, F6530, F6532, F6534, F6536, F6538, F6540, F6542, F6544, F6546, F6548, F6550, F6552, F6554, F6556, F6558, F6560, F6562, F6564, F6566, F6568, F6570, F6572, F6574, F6576, F6578, F6580, F6582, F6584, F6586, F6588, F6590, F6592, F6594, F6596, F6598, F6600, F6602, F6604, F6606, F6608, F6610, F6612, F6614, F6616, F6618, F6620, F6622, F6624, F6626, F6628, F6630, F6632, F6634, F6636, F6638, F6640, F6642, F6644, F6646, F6648, F6650, F6652, F6654, F6656, F6658, F6660, F6662, F6664, F6666, F6668, F6670, F6672, F6674, F6676, F6678, F6680, F6682, F6684, F6686, F6688, F6690, F6692, F6694, F6696, F6698, F6700, F6702, F6704, F6706, F6708, F6710, F6712, F6714, F6716, F6718, F6720, F6722, F6724, F6726, F6728, F6730, F6732, F6734, F6736, F6738, F6740, F6742, F6744, F6746, F6748, F6750, F6752, F6754, F6756, F6758, F6760, F6762, F6764, F6766, F6768, F6770, F6772, F6774, F6776, F6778, F6780, F6782, F6784, F6786, F6788, F6790, F6792, F6794, F6796, F6798, F6800, F6802, F6804, F6806, F6808, F6810, F6812, F6814, F6816, F6818, F6820, F6822, F6824, F6826, F6828, F6830, F6832, F6834, F6836, F6838, F6840, F6842, F6844, F6846, F6848, F6850, F6852, F6854, F6856, F6858, F6860, F6862, F6864, F6866, F6868, F6870, F6872, F6874, F6876, F6878, F6880, F6882, F6884, F6886, F6888, F6890, F6892, F6894, F6896, F6898, F6900, F6902, F6904, F6906, F6908, F6910, F6912, F6914, F6916, F6918, F6920, F6922, F6924, F6926, F6928, F6930, F6932, F6934, F6936, F6938, F6940, F6942, F6944, F6946, F6948, F6950, F6952, F6954, F6956, F6958, F6960, F6962, F6964, F6966, F6968, F6970, F6972, F6974, F6976, F6978, F6980, F6982, F6984, F6986, F6988, F6990, F6992, F6994, F6996, F6998, F7000, F7002, F7004, F7006, F7008, F7010, F7012, F7014, F7016, F7018, F7020, F7022, F7024, F7026, F7028, F7030, F7032, F7034, F7036, F7038, F7040, F7042, F7044, F7046, F7048, F7050, F7052, F7054, F7056, F7058, F7060, F7062, F7064, F7066, F7068, F7070, F7072, F7074, F7076, F7078, F7080, F7082, F7084, F7086, F7088, F7090, F7092, F7094, F7096, F7098, F7100, F7102, F7104, F7106, F7108, F7110, F7112, F7114, F7116, F7118, F7120, F7122, F7124, F7126, F7128, F7130, F7132, F7134, F7136, F7138, F7140, F7142, F7144, F71